



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 49]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 10, 1977/माघ 21, 1898

No. 49]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 10, 1977/MAGHA 21, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

INCOME-TAX

New Delhi, the 10th February 1977

G. S. R. 72(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (6) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby prescribes the following conditions for the exculsion from the total income of an individual, not being a citizen of India, (hereinafter called "employee") of the moneys from the value of any free or concessional passage received by or due to him from his employer for himself, his spouse and children in connection with his proceeding on home leave out of India, namely:—

- (1) In determining whether a particular passage of the spouse or a child has been taken in connection with the home leave of the employee the passage taken together with that of the employee, or those immediately preceding or following his own passage within a period of not more than 6 months either way, shall be taken into consideration.
- (2) An employee shall be entitled to exemption under clause (a) of sub-section (6) of section 10 of the said Act, only if the concessions are availed of on the occasion of his proceeding on home leave out of India. He shall not be entitled to exemption in respect of any amount paid to him in consideration of his refraining from proceeding on home leave.

- (3) Mid-term passages granted to the employee's spouse and children in addition to the home leave passage due to and actually availed of by the employee according to the conditions of his service as entered in the service agreement or the leave rules of the employer, shall not be eligible for exclusion.
- (4) Passage moneys reimbursed to the employee in respect of inward journeys undertaken by the children studying abroad and their journeys out of India, shall not be eligible for exclusion.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1977.

[No. 1654/F. No. 437/1/75-FTD]

J. C. KALRA, Jt. Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व खण्ड)

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1977

सा० का० नि० 72(ख). - केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उप-धारा (6) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ए, निम्नलिखित शर्तें विहित करती हैं जिन पर किसी व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, को कुल आय में से ऐसा यात्रा व्यय धन या ऐसी निःशुल्क या रियायती यात्रा का मूल्य जो ऐसे व्यक्ति को भारत के बाहर अपने गृह के लिए छुट्टी पर जाने के सम्बन्ध में अपने, अपनी पत्नी या अपने पति और बच्चों के लिए अपने नियोजक से प्राप्त हो या उसके द्वारा देय हो, अवर्जित किए जायेंगे, अर्थात् :-

- (1) यह अवधारण करने के लिए कि पत्नी या पति अथवा बच्चों के लिए विशिष्ट यात्रा व्यय कर्मचारी के गृह के लिए छुट्टी के सम्बन्ध में लिया गया है अथवा नहीं, वे यात्रा व्यय जो कर्मचारी के साथ लिए गए हों, अथवा जो उसके अपने यात्रा व्यय के ठीक पूर्व या पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर लिए गए हों, छूट के लिए हिसाब में लिया जाएगा।
- (2) कर्मचारी उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अधीन छूट का हकदार केवल तभी होगा जब रियायती यात्रा का मूल्य भारत के बाहर अपने गृह के लिए छुट्टी पर जाने के अवसर पर लिया जाए। वह ऐसी किसी रकम के सम्बन्ध में छूट का हकदार नहीं होगा जो उसे अपने गृह के लिए छुट्टी पर जाने से इंकार करने के लिए संदत्त की गई हो।
- (3) कर्मचारी के पति या पत्नी को तथा बच्चों को गृह के लिए छुट्टी सम्बन्धी शोध्य तथा वस्तुतः उपयोग में लाए गए यात्रा व्यय के अतिरिक्त, कर्मचारी की उन सेवा की शर्तों के अनुसार जो सेवा के करार में सम्मिलित हों अथवा नियोजक के छुट्टी नियमों के अनुसार मंजूर किया गया मध्यवर्धि यात्रा व्यय अवर्जित नहीं किया जाएगा।

- (4) भारत के बाहर अध्ययन कर रहे बच्चों द्वारा भारत आने के लिए की गई यात्राओं तथा भारत के बाहर की गई यात्राओं के संबंध में कर्मचारी को प्रतिपूर्ति किए गए यात्रा व्यय धन को अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1977 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 1654/का० सं० 457/1/75-एफ टो बी]

जे० सी० कालरा, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

